

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2014—पौष 19, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2014 (पौष 19, 1935)

क्र. 586-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की जाती है :—

अधिसूचना

‘डॉ. सीता शरण शर्मा, सदस्य, विधान सभा दिनांक 9 जनवरी, 2014 को पूर्वाह्न में मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा उक्त दिनांक को उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया है.’

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.